(FORMERLY KNOWN AS PROVESTMENT SERVICES LIMITED)

CIN: L74899DL1994PLC058964 GST NO. 07AAACP1326P1ZB WEBSITE: www.proclbglobal.com

deepika.proclbglobal@gmail.com

06th September, 2022

To,

THE MANAGER
CORPORATE RELATIONSHIP DEPARTMENT
BSE LIMITED
PHIROZE JEEJEEBHOY TOWER,
DALAL STREET, MUMBAI- 400001

Scrip Code: 540703 – PRO CLB GLOBAL LIMITED (Formerly PROVESTMENT SERVICES LIMITED)

SUB: INTIMATION UNDER REGULATION 47 OF SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015)

In pursuant to Regulation 30 read with Schedule III of SEBI Listing Regulations, 2015 (LODR), please find enclosed copies of Public notice for 28th Annual General Meeting (AGM) through Video Conferencing (VC) and Other Audio Video Means (OAVM) in compliance with General Circular No. 14/2020 and General Circular No. 17/2020, General Circular No. 20/2020 and General Circular 2/2021 dated 8th April, 2020, 13th April 2020, 05th May, 2020, 13th January 2021 and 05th May 2022 respectively and issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India and Circular dated May 12, 2020 issued by Securities and Exchange Board of India(SEBI), Book Closure, Cut-off Date and E-voting of the Company published in newspaper viz. Financial Express (English Newspaper) & Jansatta (Hindi Newspaper) as on today i.e. Wednesday, September 06, 2022.

This is for your information and records.

Please acknowledge the receipt.

Thanking you,

Yours faithfully,
For FOR PRO CLB GLOBAL LIMITED
(Formerly PROVESTMENT SERVICES LIMITED)

DEEPIK by DEEPIKA
RAJPUT
Date:
20022.09.06
RAJPUT 12:30:42
+05'30'

DEEPIKA RAJPUT
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

Encl: As below

SARNIMAL INVESTMENT LIMITED CIN: L65100DL1981PLC012431

Regd. Off: 508, 5th Floor, Arunachal Building, Barakhamba Road, New Delhi- 110001

NOTICE The 41st Annual General Meeting ("AGM") of the members of Sarnimal

Investment Limited will be held on Friday 30th September, 2022 at 09:30 A.M. at, "S-524, Vikas Marg, Shakarpur, Delhi-110092, to transact the business mentioned in the notice convening the said meeting which is being sent to the members whose name is appearing in registers on Friday 2nd September, 2022, along with the Annual Report for the year ended 31st March, 2022. Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 (Act) the register of

members and the share transfer books of the company will remain closed from Saturday 24th September, 2022 to Friday 30th September, 2022 (both the days inclusive) Pursuant to the provisions of section 108 of the Act and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Standard 2 of the Secretarial Standard on General Meeting, the Company is pleased to provide its members the facility to exercise their right to vote by electronic means ("remote e-voting) as provided by CDSL on all resolutions as set out in the notice of AGM.

- . Date and time of commencement of remote e-voting:
- Tuesday, 27th September, 2022 (9:00 A.M.)
- Date and time of end of remote e-voting:
- Thursday, 29th September, 2022 (5:00 P.M.). Cut- off date for determining the eligibility to vote:
- Friday, 16th September, 2022. Facility for voting through ballot paper shall also be made available at the
- AGM. Members attending the meeting. . Members who cast their vote by remote e-voting may also attend the
- meeting, but shall not be able to exercise their right at the meeting. The Notice of AGM is available on the Company website-

www.sarnimal.com and on the website of CDSL www.evotingindia.com.

 In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com

For Sarnimal Investment Limited

Date: 06/09/2022 Place: Delhi

Nitin Agarwal Managing Director

INDO GULF INDUSTRIES LIMITED CIN: L74900DL1981PLC011425

Registered Office: 4237/11, IInd Floor, Narendra Bhawan 1, Ansari Road, Daryaganj New Delhi - 110002, Email: rjheadoffice@gmail.com NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE DATE Notice is hereby given that the 39th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on

Thursday, the 29th Day of September, 2022 at 11.00 A.M through Video Conferencing/other Audio visual means in compliance with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, General Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020, General Circular No. 33/2020 dated September 28 2020, General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and General Circular No. 02/2022 dated May 5, 2022 (collectively "MCA Circulars" d Evchange Roard of India ("SERI") vide CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, Circular No. SEBI/ HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 on May 13, 2022 (collectively "SEBI Circulars")(hereinafter collectively referred to as circulars) companies are allowed to hold AGM's through VC, without the physical presence of members at a common venue. Hence the AGM of the Company is being held through VC to transact the business as set out in the AGM Notice. n compliance with the circulars, electronic copies of the notice of the AGM and Annual Report 2021 22 have been sent to all the members whose email-IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). These documents are also available on the website of the Company, at WWW.INDOGULFIND.IN, Stock exchanges website and on the website of Central Depository securities Limited ("CDSL"). The Dispatch of Notice of AGM through emails has been completed on 04.09.2022.

Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date 26.08.2022 may cast their votes electronically on the business as set forth in the notice of the AGM through the electronic voting system of CDSL (remote e-voting). Members are hereby informed that: The business as set forth in the notice of the AGM may be transacted through remote e-voting

- The remote e-voting shall commence on Sunday 26.09.2022 at 9:00 A.M. The remote e-voting shall end on Tuesday 28.09,2022 at 5:00 P.M.
- The cut off date for determining the eligibilityto vote by remote e-voting or by e-voting system at the AGM shall be 23.09.2022
- Remote e-voting module will be disabled after 5:00 P.M on 28.09.2022 Any person who acquires shares of the company and becomes a member post-dispatch of the Notice of the AGM and holds shares as on the cut-off date i.e 23.09.2022may obtain the login
- ID and password by sending a request at www.evotingindia.com. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting then the existing user iD and password can be used for casting Members may note that a) The remote e-voting module shall be disabled by CDSL beyond 5:00
- PM IST on28.09.2022 and once the votes on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) The facility for voting will also be made available during AGM and those members present in the AGM through VC facility who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so shall be eligible to vote through the e-voting system at the AGM. C) The members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again. And d) Only persons whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut -off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the AGM.
- i. The manner of voting remotely for members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses is provided in the notice of the AGM. The detail are also be made available on the website of the company. Members are requested to visit www. Indogulfind.in to obtain details.
- Members who have not registered their email addresses are requested to register their email addresses with respective depository participant(s) and members holding shares in physical mode are requested to update their email addresses with company's Registrar and share transfer Agent BEETAL Financial & Computer Services Pvt Ltd at beetalrta@gmail.com to receive copies of the Annual Report 2021-22 along with the notice of the 39th AGM, instructions for remote e-voting and instructions for participation in the AGM through VC. The manner in which the members who wish to register mandates for receiving their dividend is
- If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System.
- you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022- 23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr.
- All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mi Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor. Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai

400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43 For and on behalf of board Indo Gulf Industries Limited

Date: 01.09.2022

Tanushree Purohit Company Secretary

AHLUWALIA CONTRACTS (INDIA) LIMITED

(Corporate Id Number: L45101DL1979PLC009654) Regd. Office: Plot No. A-177, Okhla Industrial Area,

Phase-I, New Delhi-110020 Website:- www.acilnet.com, E-mail:- cs.corpoffice@acilnet.com

NOTICE OF THE 43rd ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

- The 43rd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Wednesday. the 28th day of September, 2022 at 3.00 p.m. hosted at A-177, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110020, (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the Ordinary and Special Businesses, as set out
- Notice of AGM and Annual Report for Financial Year 2021-22 has been sent to all the members whose name appeared in the Register of Members as on Friday, 26th August, 2022 through electronic mode to the shareholders whose e-mail ids are registered with the Company/ Registrar & Transfer Agent (RTA) or with the Depository Participants in accordance with the General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021 and 02/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021 and May 05, 2022 respectively (hereinafter collectively referred as ("MCA Circulars") issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/ CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/ 2021/11 dated January 15, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"). The Company has completed the dispatch of Notice of 43rd AGM and Annual Report through e-mail on 5th September, 2022;
- 3. In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the shareholders holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on cut-off date of i.e. Wednesday, 21st September, 2022, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of Link Intime India Pvt. Limited ("LIIPL") from a place other than venue of AGM ("Remote E-voting"). All the shareholders are informed that
 - The remote e-Voting shall commence on Sunday, 25th September, 2022 at 10:00 A.M. The remote e-Voting shall end on Tuesday, 27th September, 2022 at 5:00 P.M.
- The remote e-Voting shall not be allowed beyond the above said date and time. 4. Any person who acquires shares of the Company and becomes shareholder after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on cut-off date i.e. Wednesday,
- 21st September, 2022 may obtain the Login-Id and Password after following the voting instruction provided in the notice of AGM; A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of
- beneficial owners maintained by the Depositories as on cut-off date of i.e. Wednesday, 21st September, 2022 shall only be entitled to avail the facility of remote e-Voting as Shareholders may note that: a) the remote e-Voting module shall be disabled by LIIPL
- after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again;
- by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently: b) the shareholders who have cast their vote by remote e-Voting prior to the AGM may The Notice of AGM is available on the Company's website www.acilnet.com and
- also on the LIPL's website www.linkintime.co.in; 8. In case of queries or grievances, shareholders may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-Voting User Manual for members at
- www.instavote.linkintime.co.in under help section or write an email to Mr. Bharat at enotices@linkintime.co.in or call on number at 022-49186000. Shareholders may also write to the Company Secretary & Compliance Officer of the Company at cs.corpoffice@acilnet.com or at the Registered Office of the Company, address mentioned above for the grievances connected with facility for voting by electronic means: and In terms of Section 91 of the Companies Act, 2013, read with Rule 10 of the Companies
- (Management and Administration) Rules, 2014, and as per the Listing Regulations, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, 22nd September, 2022 to Wednesday, 28th September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of Declaration of Dividend and for the 43rd Annual General Meeting of the Company.

For Ahluwalia Contracts (India) Ltd (Vipin Kumar Tiwari)

Company Secretary

ABHINAV LEASING AND FINANCE LIMITED CIN: L65100DL1984PLC018748

Regd. Off: S-524, IST FLOOR, VIKAS MARG. SHAKARPUR, DELHI-110092

NOTICE

The 38th (Thirty eighth) Annual General Meeting ("AGM") of the members of Abhinav Leasing And Finance Limited will be held on Friday, 30th September, 2022 at 10:00 A.M. at, "S-524, 1st Floor, Vikas Marg, Shakarpur, Delhi-110092 to transact the business mentioned in the notice convening the said meeting which is being sent to the members whose name is appearing in registers on Friday 2nd September, 2022, along with the Annual Report for the year ended 31st March, 2022.

Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 (Act) the register of members and the share transfer books of the company will remain closed from Saturday 24th September, 2022 to Friday 30th September, 2022 (both the days inclusive) Pursuant to the provisions of section 108 of the Act and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Standard 2 of the Secretarial Standard on General Meeting, the Company is pleased to provide its members the facility to exercise their right to vote by electronic means ("remote e-voting) as provided by CDSL on all resolutions as set out in the notice of AGM.

- Date and time of commencement of remote e-voting:
- Tuesday, 27th September, 2022(9:00 A.M.)
- Date and time of end of remote e-voting:
- Thursday, 29th September, 2022 (5:00 P.M.) . Cut- off date for determining the eligibility to vote:
- Friday, 16th September, 2022. Facility for voting through ballot paper shall also be made available at the
- AGM. Members attending the meeting. Members who cast their vote by remote e-voting may also attend the
- meeting, but shall not be able to exercise their right at the meeting. The Notice of AGM is available on the Company websitewww.abhinavleasefinltd.in and on the website of CDSL
- In case you have any gueries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com

For Abhinav Leasing And Finance Limited

Date: 06/09/2022 Place: Delhi

www.evotingindia.com

Mamta Agarwal Managing Director

ARCEE INDUSTRIES LIMITED Regd. Office: 7th K.M. Barwala Road, Talwandi Rana, Hisar - 125 001 (Haryana) Email: arceeind@rediffmail.com: Tel.: 98120-40111, 98120-40222

CIN: L29120HR1992PLC031681 NOTICE OF 30TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

lotice is hereby given that the 30th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Friday, 30th September 2022 at 9:00 a.m. at the registered office of the Company at 7th K.M. Barwala Road, Talwandi Rana, Hisar (Haryana) to transact the Ordinary and special Business as set out in the notice of the 30th AGM.

The Company has completed the dispatch of the Notice of AGM and the Annual Report for 2021 22. Electronic copies have been sent to all the members whose email ID are registered with the Company/Depository Participants and physical copies have been sent to the members at their registered address whose email ids are not registered with the Company/Depository Participants. his communication and the Notice along with the Annual Report for 2021-22 are available at the following websites www.arceeindustries.in and http://evoting.nsdl.com. The communication relating to remote e-voting, inter-alia, containing user ID and password have been dispatched to the members. s per Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and dministration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company is pleased to provide the facility to its members to exercise their right to vote by electronic means from a place other than the venue of the meeting ('remote e-voting'). The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) as the authorized agency to provide remote e-voting facility. The details of the remote e-voting are as under:-

- Date and time of commencement of remote e-voting: 27th September, 2022 (9:00 a.m.) Date and time of end of remote e-voting: 29th September, 2022 (5:00 p.m.)
- The remote e-voting shall not be allowed beyond 29th September, 2022 (5:00 p.m.)
- A person, whose name appears in the register of members/ beneficial owners as on the cutoff date i.e., 23rd September, 2022 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting
- A person, who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meetin and holding shares as on the cut-off date, may obtain the user ID and password by following the detailed procedure as provided in the Notice of the meeting which is available on Company's website and NSDL's website. If the member is already registered with NSDL for e-voting then he can use his existing user ID and password for casting the vote through remote e-voting.
- A facility of voting through ballot paper shall also be made available at the AGM and members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote at the meeting.
- the meeting but shall not be entitled to cast their vote again. In case of any queries/ grievances relating to remote e-voting, the members/ beneficial owners may contact at the following address:

The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may attend

Sh. Ankur Mittal/ Sh. Narendra Dev. Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel Mumbai 400 013, Phone No. 022 2499 4545 or at Toll free no. 1800-222-990; e-mail evoting@nsdl.co.in. Members may also write to the Company at arceeind@rediffmail.com or

lotice is also hereby given that pursuant to Section 91 of Companies Act, 2013, Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 20th September, 2022 to Friday, 30th September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

For Arcee Industries Limited

Place: Hisar (Haryana) Date: September 5, 2022

(Shruti Gupta) Whole Time Director DIN - 01742368

TRIDEV INFRAESTATES LIMITED (Formerly Ashutosh Paper Mills Ltd)

CIN: L65100DL1988PLC033812 Regd. Off: S-524, F/F, School Block, VikasMarg, Shakarpur Delhi 110092

NOTICE

The 34th (Thirty Fourth) Annual General Meeting ("AGM") of the members of Tridev Infraestates Limited will be held on Friday, 30th September, 2022 at 11:00 A.M. at, "S-524, F/F, School Block, Vikas Marg, Shakarpur Delhi 110092, to Transact The Business Mentioned In The notice convening the said meeting which is being sent to the members whose name is appearing in registers on Friday 2nd September, 2022, along with the Annual Report for the year ended 31st March, 2022.

Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 (Act) the register of members and the share transfer books of the company will remain closed from Saturday 24th September, 2022 to Friday 30th September, 2022 (both the days inclusive) Pursuant to the provisions of section 108 of the Act and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Standard 2 of the Secretarial Standard on General Meeting, the Company is pleased to provide its members the facility to exercise their right to vote by electronic means ("remote e-voting) as provided by CDSL on all resolutions as set out in the notice of AGM.

- Date and time of commencement of remote e-voting:
- Tuesday, 27th September, 2022 (9:00 A.M.) Date and time of end of remote e-voting:
- Cut- off date for determining the eligibility to vote: Friday, 16th September, 2022.

Thursday, 29th September, 2022 (5:00 P.M.).

- Facility for voting through ballot paper shall also be made available at the AGM. Members attending the meeting.
- meeting, but shall not be able to exercise their right at the meeting. The Notice of AGM is available on the Company websitewww.tridevinfraestates.in and on the website of CDSL www.evotingindia.com

Members who cast their vote by remote e-voting may also attend the

 In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to

> For Tridev Infraestates Limited Sunil Kumar Agarwal

Date: 06/09/2022 Place: Delhi

Managing Director <u>"IMPORTANT"</u>

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contants. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals adversing in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on advertisement in any manner whatsoever.

The Parwanoo Urban Co-operative Bank Ltd. 4-A Sector 1, Parwanoo-173220 Distt. Solan (H.P.)

NOTICE

Notice is hereby given, that the 24th Annual General Meeting of Members of the Bank will be held virtual on Friday, the 23rd day of September, 2022 at 3.00 pm at HO Plot No. 4, Sector 1, Parwanoo to transact business as set out in notice of the meeting. All the members are requested to please attend the meeting by visiting our website www.parwanoobank.com on 23.09.2022 at 3.00 PM. Please download "Microsoft Teams" application from the google play store.

The members can also attend the meeting at our Parwanoo, Solan, Dharampur, Shamti, Baddi, Nalagarh, Una, Ghumarwin, Bilaspur, Hamirpur and Sunder Nagar Branches through digital connectivity at 3.00 pm. NOTE: The Register of Members of the Bank shall remain closed from

09.09.2022 to 23.09.2022 (both days inclusive).

By order of the Board For The Parwanoo Urban Co-operative Bank Ltd. Date: 05.09.2022 Place: Parwanoo Chief Executive Officer

MOHAN SHRAMIK UDYOG LIMITED

E-mail: mohanshramik@gmail.com Regd. Off: FF-3, Plot no-319, Sector-3, Vasundhara, Ghaziabad-201012 NOTICE OF 46th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK-CLOSURE

CIN: U51101UP1976PLC004244

Notice is hereby given that the Forty-Six Annual General Meeting of Mohan Shramik Udyog Limited will be held at registered office on Friday, the 30th day of September, 2022 at 1.00 P.M. The notice of the meeting setting out of ordinary business together with other relevant documents being sent through electronic mode to all the shareholders who have registered their e-mail addresses with the company.

As per requirement, e-voting facility is being offered using e-voting platform of CDSL enabling shareholders to cast their vote electronically. The e-voting will commence on Tuesday, the 27th September, 2022 at 9.00 A.M. IST and ends on Thursday, the 29th September, 2022 at 5.00 P.M. IST. The cut-off date for the purpose of e-voting is 23rd September, 2022. The Company has appointed Mr. Ashutosh Kumar Pandey, Company Secretary in whole time practice, as the Scrutinizer to conduct e-voting and poll process in a fair and transparent manner. The Registrar of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, the 28th day of September, 2022 to Friday, the 30th day of September, 2022 (both days inclusive).

For Mohan Shramik Udyog Limited

Place: Mohan Nagar, Ghaziabad (U.P.) Date: 05.09.2022

Ram Chander

RAI BAHADUR NARAIN SINGH SUGAR MILLS LTD. CIN:U74899DL1932PLC000298

Regd. Office: 2, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001 Head Office : B- 40, Second Floor, B- Block, Connaught Place, New Delhi-110001 Tel.: 011-41513656, 58 E-mail: rbns@rbnssugar.in; rbnsmail@rbnssugar.in

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING Notice is hereby given that the ANNUAL GENERAL MEETING of the Company will be

held on Wednesday, 28th day of September, 2022 at 4:00 PM through Video Conferencing (VC) or other Audio- Visual Means (OAVM) mode as permitted by Ministry of Corporate Affairs to transact the business as stated in the notice of the In terms of the provisions of the Income-tax Act, 1961 ("the Act"), dividend paid or

distributed by a Company on or after April 1, 2020 is taxable in the hands of the shareholders and therefore the Company is required to withhold/ deduct taxes at the prescribed rates on the dividend paid to its shareholders. The tax rates would vary depending on the residential status of the shareholder and the exemptions as enumerated in the Income Tax Act, 1961 and Rules made there under.

All shareholders are requested to ensure that the details such as Permanent Account Number ("PAN"), residential status, category of shareholder, email id, bank details and address are updated with the Company and Registrar & Share Transfer Agent of the Company. Please note that these details as available on Book Closure Date in the Register of Members will be relied upon by the Company, for the purpose of complying with the applicable withholding tax provisions.

Notice pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Tuesday, 27th September, 2022 to Wednesday, 28th September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and payment of Final Dividend, if approved by the members at the Annual General Meeting of the Company. By order of the Board

For Rai Bahadur Narain Singh Sugar Mills Ltd.

Nidhi Arora

Company Secretary

DATE : 26.08.2022 PLACE: NEW DELHI

R R FINANCIAL CONSULTANTS LIMITED CIN: L74899DL1986PLC023530 Regd. Off:- 412-422, 4th Floor, Indraprakash Building, 21 Barakambha Road, New Delhi-110001 Phone: 011-23354802 Email id: cs@rrfcl.com Website: www.rrfcl.com

NOTICE OF THE 35th ANNUAL GENERAL MEETING.

EVOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

- Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting (AGM) of the company will be held on Tuesday, September 27, 2022 at 10.00 A.M (IST) at registered office of the company at 412-422, Indraprakash Building, 21 Barakhambha Road, Connaught Place Central Delhi 110001 though Video Conferencing (VC) /Other Audio Video Means (OAVM) in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligation and Disclosure requirements) Regulation 2015 read with General circulars No. 02/2022 dated 05.05.2020 and General circulars No. 02/21 dated 03.01.2021, General circulars No. 20/2021 dated 08. 12.2021, General circulars No. 21/2021 dated 14.12.2021 and General Circular No. 02/ 2022 dated 05.05.2022 and other applicable circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI (collectively referred as relevant circulars) without the physical presence of members at a common venue. Members will be able to attend the AGM through VC/ OAVM only. Members participating through the VC/ OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under section 103 of the Companies Act, 2013.
- In Compliance with the relevant circulars, the notice of AGM and the Annual Report 2021-22 including the standalone and Consolidated Financial Statements for the Financial year 2021 22, along with Board's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto, will be sent only by email to all the members of the Company whose email address is registered with the company/ DP(s). The aforesaid documents will also be available on the company's website www.rrfcl.com and on the website of the stock Exchange BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of company's RTA, M/s Link Intime India Private Limited (LIIPL) at https://instavote.linkintime.co.in.
- Notice pursuant to section 91 of the companies Act, 2013 and Regulation 42 & 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure requirements) Regulation 2015 is hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the company shall remain closed from Wednesday 21st September 2022 to Tuesday 27th September 2022, (both days inclusive)

Manner of registering/updating email addresses for obtaining Notice of AGM, Annual Report 2021-22 and/ or login credential for joining the AGM through VC/ OAVM including e-voting Members who have not registered their email address and in consequences the Annual

- report. Notice of AGM and e-voting instructions cannot be serviced, may temporarily ge their email address and mobile number registered with LIIPL, by accessing the link enotices@linkintime.co.in or call them at :- Tel : 022 - 49186000. Members are requested to follow the process as guided to capture the email address and mobile number for sending the soft copy of the notice and e-voting instructions along with user ID and Alternatively, members may send an e-mail request at the email id cs@rrfcl.com along with
- scanned copy of the signed request letter providing the e-mail address, mobile number, self-attested PAN copy and copy of share certificate in case of physical folio for sending the Annual report, Notice of AGM and the e-voting instructions. In order to enable the company to comply with MCA circulars and to participate in the green

initiative in corporate governance, members are requested to register their email addresses in respect of shares held in electronic form with their DP(s) permanently for sending the Annual Report, Notice of AGM and the e-voting instructions

- Manner of casting vote(s) through e-voting and joining the AGM. a) Members can cast their vote(s) on the business as set out in the notice of the AGM through electronic voting system (e-voting)
- The manner of voting remotely (remote e-voting) by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses in providing in the notice of AGM.
- AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM. d) The login credential for casting votes through e-voting shall be made available to the members through email. Members who do not receive email or whose email addresses are not registered with the company/ LIIPL/ DP(s), may generate login credentials by following instructions given in the Notes to notice of AGM.

The same login credentials may also be used for attending the AGM through VC/ OVAM.

The facility for e-voting will also be made available at the AGM and Members attending the

- Electronic copies of the notice of the 35th AGM and the annual report of the Company for the financial year 2021-22 will be sent to all the members whose email ids are registered with the Company/ Depository participant(s). The notice of the 35th AGM and the annual report for the financial year 2021-22 is also available on the company's website www.rrfcl.com. Members holding shares either in physical form or in demateralised form, as on the cutoff date
- of 20th September, 2022, may cast their vote electronically on the ordinary or/ and Special Business (es) as set out in the notice of the 35th AGM through electronic voting system of M/s Link Intime India Private Limited. a) The electronic transmission of Annual report, Notice of 35th AGM and other documents

will completed by 2nd September, 2022.

Place: New Delhi

Date: 02.09.2022

2022 at 9am and ends on Monday 26th September, 2022 at 5pm The voting module shall be disabled by M/s Link Intime India Private Limited for voting after 5:00 p.m. on 26th September 2022.

The company is availing the services of M/s Link Intime India Private Limited for facilitating

the E-voting facility to it members. E-voting shall commence on Saturday, 24th September,

- The notice of the 35th AGM is available on the Company's website www.rrfcl.com and Link Intime India Private Limited website https://instavote.linkintime.co.in. and; e) In case of any queries, members may visit Help and FAQ section & e-voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under Help section or write an email to
- enotices@linkintime.co.in or call them at :- Tel : 022 49188000. Pursuant to the provisions of section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Register of

Members and Share Transfer Books for Equity shares of the company will remain closed from Wednesday 21st September 2022 to Tuesday 27th September 2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM. For and on behalf of the Board of R R Financial Consultants Limited

Rajat Prasad Date: 06/09/2022 Managing Director DIN: 00062612 Place: New Delhi New Delhi

DEBOCK

DEBOCK INDUSTRIES LIMITED

(Formerly known as Debock Sales And Marketing Limited)

CIN: L52190RJ2008PLC027160

Regd. Office:51, Lohiya Colony, 200 Feet Bye-Pass, Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan-302021 Tel:+91-7999999975 Email: cs@debockgroup.com Website: www.debockgroup.com

NOTICE OF 14TH ANNUAL GENERAL MEETING Notice is hereby given that the 14thAnnual General Meeting ('AGM') of the Shareholders

of Debock Industries Limited (Formerly known as Debock Sales And Marketing Limited (the 'Company') will be held on Wednesday, September 28, 2022 at 12:00 P.M. (IST) at the registered office of the Company situated at 51, Lohiya Colony, 200 Feet Bye-Pass, Vaishali Nagar, Jaipur-302021 to transact the business as set out in the Notice of the 14th AGM ('AGM Notice'), at a common venue. In Compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules

made thereunder (the 'Act'), provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') and the provisions of applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India ('MCA') and other circulars issued by Securities and Exchange Board of India ('SEBI'), , the AGM Notice and the Annual Report for financial year 2021-22 has been electronically sent on Monday, September 05, 2022 by email to those Shareholders whose email addresses are registered with the Company / Registrar and Share Transfer Agent, M/s. Cameo Corporate Services Limited/ Depository participants(s). The said Annual Report including AGM Noticeis alsoavailable on the website of the Company at www.debockgroup.com, on the websiteof CDSL at www.evotingindia.comand on the website of the Stock Exchanges i.e. NSE Limited

The Company is providing its Shareholders the e-voting facility to cast their votes on

all the resolutions set out in the AGM Notice by using an electronic voting system from

a place other than the venue of the AGM (i.e. remote e-voting). The Company will

alsoprovide a facility of e-voting to Shareholders during the AGM, who have not cast their vote by remote e-voting. The Company has entered into an arrangement with CDSL for providing the remote e-voting and e-voting during the AGM. Shareholders will have opportunity to cast their vote remotely or during the AGM on the business as set out in the AGM Notice through the electronic voting system. The detailed instructions relating to remote e-voting and e-voting during the AGM for share holders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who

vided in the AGM Notice. The Shareholders are hereby requested to note that:

 A person, whose name is recorded in the Register of Shareholders /Beneficial owners maintained by the Depositories/RTA as on the cut-off date i.e., Tuesday, September 20, 2022 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting during the AGM.

have not registered their email addresses are provided in the Notes forming part of

the AGM Notice. Instructions for attending the AGM through VC/OAVM are also pro-

- The remote e-voting period will commence on Saturday, September 24, 2022 at 09:00 A.M. and will end on Tuesday, September 27, 2022 at 05:00 P.M.During this period, the member(s) of the Company may cast their votes electronically on items mentioned in the AGM Notice. Voting through remote e-voting shall not be allowed beyond 05:00 P.M. on Tuesday, September 27, 2022. Once the vote on a resolution is cast by a member, any subsequent change shall not be allowed. The voting rights of the Shareholders shall be in proportion to their shares in paid-up
- vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system available during The Shareholders who have cast their vote through remote e-voting may attend the

share capital of the Company as on the cut-off date i.e. Tuesday, September 20, 2022.

d. Only those Shareholders, who will be present in the AGM and have not cast their

- AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Any person, who becomes a member of the Company after sending of the AGM Notice by email and holding shares as on Tuesday, September 20, 2022, may refer to the AGM Notice and obtain the login IDand password from Link Intime by sending
- a request at evoting@cdsl.co.in Shareholders whose email id is not registered, may refer "Registration of email ID" as detailed in AGM Notice.
- In case shareholders have any queries regarding attending AGM/e-voting, they may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022-23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542).

ForDebock Industries Limited (Formerly known as Debock Sales And Marketing Limited)

Date: September 05, 2022 Place: Jaipur

Ankit Sharma Company Secretary

M.No. A57446

PRO CLB GLOBAL LIMITED (FORMERLY PROVESTMENT SERVICES LIMITED)

CIN: L74899DL1994PLC058964 REGD. OFFICE: Building No. 5, First Floor, Pusa Road W.E.A., Karol Bagh, New Delhi -110 005 | Tel.: 011-47177000 Email Id: deepika.proclbglobal@gmail.com Website: www.proclbglobal.com

Information Regarding 28th Annual General Meeting of PRO CLB GLOBAL LIMITED

NOTICE is hereby given that the 28th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, September 29, 2022 at 04:00 P.M. deemed to be convened at registered address of the company through Video Conferencing (VC) and Other Audio Video Means (OAVM) in compliance with General Circular No. 20/2020 Dated 5th May, 2020 read with General Circular No. 14/2020 and General Circular No. 17/2020 dated 8th April, 2020 and 13th April, 2020, 05th May, 2020, 13th January, 2021 and 05th May 2022 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India and Circular dated May 12, 2020 issued by Securities and Exchange Board of India(SEBI), to transact the business (es) as set out in the Notice of the AGM which is being sent to the members by E-mail.

- 2. 28th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, September 29, 2022 at 04:00 P.M. through Video Conferencing (VC) and Other Audio Video Means (OAVM). . In compliance with the above said Circular Notice along with Annual Report for the
 - Financial Year will be sent only by the electronic mode to all the Members at their registered email-ids and the same is also available on the website of the Company at www.proclbglobal.com. The Notice of AGM is also available on the website CDSL at www.evotingindia.com . Shareholders will have an opportunity to cast their vote remotely on the businesses as

set forth in the Notice of the AGM through remote e-voting System. The Log in

credentials for casting the votes through e-voting shall be made available to the

shareholders through e-mail. The detailed procedure for casting the votes through evoting and e-voting system during the meeting shall be provided in the Notice of the . Members who have not registered their email addresses, so far, are also requested to register their email address in respect of electronic holdings with depository through their concerned Depository Participants. Members who hold their shares in physical form are requested to get their email id registered, by providing necessary details like

on deepika.proclbglobal@gmail.com NOTICE FOR 28th (ANNUAL GENERAL MEETING) AGM, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

Folio No., Name of the Member, Mobile No. And Email Id with M/s. Beetal Financial &

Computer Services Pvt. Ltd (Registrar & Transfer Agent of the Company) or sent details

NOTICE is hereby given that the 28th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, September 29, 2022 at 04:00 P.M. deemed to be convened at registered address of the company through Video Conferencing (VC) and Other Audio Video Means (OAVM) to transact the business (es) as set out in the Notice dated September 02, 2022. The said Notice along with Annual Report has been sent to all the Members at their registered email-ids by Tuesday, September 06, 2022 and the same is also available on the website of the Company at www.proclbglobal.com The Notice of AGM is also available on the website CDSL at www.evotingindia.com

Friday, September 23, 2022 to Thursday, September 29, 2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM of the Company for the year ended March 31, 2022. As permitted under Rule 11 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, the Annual Report for the year 2022 have been sent electronically on 06th September, 2022 to those members who have registered their e-mail id addresses with M/s. Beetal Financial &

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management &

Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the

Register of Members and Share transfer Books of the Company will remain closed from

Members who have not registered their email addresses, so far, are also requested to register their email address in respect of electronic holdings with depository through their concerned Depository Participants. Members who hold their shares in physical form are requested to get their email id registered, by providing necessary details like Folio No., Name of the Member, Mobile No. And Email Id with M/s. Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd (Registrar & Transfer Agent of the Company) or sent details on deepika.proclbglobal@gmail.com

Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and in terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014: a) The Company is providing remote e-voting facility to its Members to cast their vote by

c) End of remote e-voting: Wednesday, September 28, 2022 05:00 p.m.(IST)

- electronic means on the Resolutions set out in the Notice of the 28th AGM dated September 02, 2022. b) Commencement of remote e-voting: Monday, September 26, 2022 10:00 a.m. (IST)
- d) Cut-off date: September 22, 2022. e) Remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting after 05:00 p.m. (IST) on Wednesday, September 28, 2022.
- The result of the E-voting /Remote E-voting shall be declared on or before October 01,

2022. The Result declared, along with Scrutinizer Report will be available at the Registered Office of the Company and also be placed on the Company's website and communication to the Stock Exchanges where the Company's shares are listed. By Order of the Board For PRO CLB GLOBAL LIMITED

DEEPIKA RAJPUT (Company Secretary & Compliance Officer)

Computer Services Pvt. Ltd (Registrar & Transfer Agent of the Company).

(Formerly PROVESTMENT SERVICES LIMITED)

Place: New Delhi

Date: September 5, 2022 financialexp.epap

त्रिदेव इन्फ्राएस्टेट्स लिमिटेड

(पूर्व में आशुतोष पेपर मिल्स लि.) सीआईएनः एल65100डीएल1988पीएलसी033812 पंजीकृत कार्यालयः एस-524, एफ / एफ, स्कूल ब्लॉक, विकास मार्ग, शकरपुर, दिल्ली—110092

त्रिदेव इन्फ्राएस्टेट्स लिमिटेड के सदस्यों की 34वीं (चौंतीसवीं) वार्षिक आम सभा (एजीएम) शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2022 को 11.00 बजे मध्या. में ''एस-524, एफ / एफ, स्कूल ब्लॉक, विकास मार्ग, शकरपूर, दिल्ली-110092'' में आयोजित की जाएगी जिसमें उक्त सभा के आयोजन की सूचना, जो 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट के साथ शुक्रवार 2 सितम्बर 2021 को पंजीकाओं में वर्णित सदस्यों के नाम में भेजी गई है, में वर्णित व्यवसायों का निष्पादन किया जायेगा।

कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 91 के अनुपालन में, सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण बहियां शनिवार 24 सितम्बर 2022 से शुक्रवार 30 सितम्बर 2022 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगी। अधिनियम की धारा 108 तथा कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 20 तथा साधारण सभा पर सचिवालयी मानक के मानक—2 के प्रावधानों के अनुपालन में, यह कंपनी एजीएम की सचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराई गई इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (''रिमोट ई–वोटिंग'') द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा अपने सदस्यों को उपलब्ध करा रही है। ● रिमोट ई—वोटिंग शुरू होने की तिथि एवं समयः मंगलवार 27 सितम्बर 2022

- (9.00 बजे पूर्वा.) ● रिमोट ई—वोटिंग बंद होने की तिथि एवं समयः बृहस्पतिवार 29 सितम्बर 2022
- (5.00 बजे सायं) ● मतदान की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए कट ऑफ तिथिः शुक्रवार 16
- एजीएम में, सभा में उपस्थित होने वाले सदस्यों के लिए, मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- जो सदस्य रिमोट ई─वोटिंग द्वारा अपना मतदान करते हैं, वे भी सभा में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन वे सभा में अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होंगे।
- एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.tridevinfraestates.in एवं सीडीएसएल की वेबसाईट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। ● यदि ई–वोटिंग से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा अथवा प्रश्न हो तो आप
- www.evotingindia.com पर सहायता खंड के अंतर्गत उपलब्ध तीव्रतापर्वक पुछे जानेवाले प्रश्नों (एफएक्यू) तथा ई-वोटिंग मैन्युअल देख सकते हैं अथवा ...पर ईमेल कर सकते हैं।

कृते त्रिदेव इन्फ्राएस्टेट्स लिमिटेड

सुनील कुमार अग्रवाल प्रबंध निदेशक

दिनांकः 06.09.2022 स्थानः दिल्ली

BCC

BCC FUBA INDIA LIMITED CIN: L51395HP1985PLC012209

fuba Regd. Office: 4 K.M., Swarghat Road, Nalagarh-174101, Distt. Solan (H.P.) Tel:9218423157, Website:www.bccfuba.com

NOTICE OF 36™ ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 36" Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Friday, the 30" day of September, 2022 at 11:30 A.M. through Video Conferencing (VC) in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No. 2/2022 dated 5" May 2022 read with General Circular Nos. 20/2020 dated 5" May, 2020, 02/2021 dated 13" January, 2021, 19/2021 dated 8th December, 2021 and 21/2021 dated 14th December, 2021 respectively issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) to conduct the business as set forth in the Notice of the meeting.

The Annual Report containing, inter alia, the notice convening the AGM setting out the business to be transacted there at, Balance Sheet, Statement of Profit & Loss for the financial year ending as on 31" March, 2022, the Auditor's Report thereon and the report of the Board of Directors have been sent to the members whose email addresses are registered with the Company/Registrar & Transfer Agent (RTA). The aforesaid documents are also available on the company's website at www.bccfuba.com and the website of the Stock exchange at www.bseindia.com.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the company is providing to its members, facility to exercise their vote on resolutions as set out in the Notice. The Company has engaged the services of Link Intime India Private Limited (LIIPL) for providing remote e-voting facility. The facility of voting through electronic means will also be available at the AGM and only those members who are present in the AGM and have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, will be eligible to vote at the AGM The details and instructions for remote e-voting and voting at the AGM forms part of Notice

The remote e-voting period will commence on 9:00 A.M. on Tuesday, 27" September, 2022 and will end at 5.00 P.M. on Thursday, 29" September, 2022. Aperson whose name appears in the Register of Members/Beneficial owners as on cut-off i.e.Friday, 23" September 2022.

The detailed procedure/instructions for remote e-voting and e-voting provided during the meeting are provided in the Notice of Annual General Meeting and members holding shares either in physical or demat form, as on the cut-off date may cast their vote electronically on the business set forth in the Notice of AGM. The members who have cast their vote through remote e-voting, prior to the meeting can attend the AGM but are not entitled to cast their vote again. In case of any queries or issues regarding e-voting, the members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and Instavote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under Help section or write an email to enotices@linkintime.co.in or Call us :- Tel: 022 - 49186000.

The Board of Directors has appointed Mr. Naresh Samkaria, Partner of Samkaria 8 Associates, Practicing Chartered Accountant, to act as the Scrutinizer, to scrutinize the entire e-voting process and e-voting at AGM in a fair and transparent manner.

The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 24th September, 2022 to Friday, 30th September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of this AGM. In case shareholders/ members have any queries regarding login, they may send an email to instameet@linkintime.co.in or contact on: - Tel 022-49186175.

By Order of the Board For BCC Fuba India Limited

Date: 03-09-2022 Place: New Delhi

Dinesh Kumar Yadav Company Secretary & Compliance Officer

फोर्थ डाइमेशन साल्युशन्स लिमिटेड सीआईएन : L72900DL2011PLC221111 दुरभाष : 011-4156 2293 पंजीकृत कार्यालय : 710, नौरंग हाउस, केजी रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 ई-मेल : secretarial.fdsl@gmail.com वेबसाइट : www.fdsindia.in

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित होने वाली कम्पनी की 10वीं

वार्षिक आम बैठक तथा ई-वोटिंग जानकारी की सचना एतद्वारा सूचना दी जाती है कि एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय के लेन-देन हेतु फोर्थ डाइमेंशन सॉल्यूशन्र लिमिटेड (कम्पनी) के सदस्यों की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीडियो कांफ्रेसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से बृहस्पतिवार, 29 सितम्बर, 2022 को 12.30 बजे अप. (भा.मा.स.) को आयोजित की जायेगी, एजीएम की सचना सिहत वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों के पास केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जायेगी जिनके ई-मेल पते कम्पनी अथवा रजिस्ट्रार एवं अन्तरण एजेंट तथा डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत होंगे। एजीएम की सूचना की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता आम बैठकों के एमसीए परिपत्र तथा आम

बैठकों के सेबी परिपत्र के माध्यम से समाप्त कर दी गयी है। एजीएम की सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.fdsindia.in तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात www.nseindia.com पर उपलब्ध है। इसकी एक प्रति सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया)

लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। . कट-ऑफ तिथि अर्थात बृहस्पतिवार, 22 सितम्बर, 2022 तक भौतिक प्रारूप अथवा डीमैटीरियलाइज्ड प्रारूप में

शेयर धारण करने वाले सदस्य एजीएम की सचना में निर्धारित व्यवसाय पर सीडीएसएल के इलेक्टॉनिक वोटिंग सिस्टम (रिमोट ई-वोटिंग) के माध्यम से अपना मतदान कर सकते हैं। कम्पनी के सभी सदस्यों को सुचित किया

जाता है कि (i) एजीएम की सूचना में निर्धारित साधारण व्यवसाय का लेन-देन केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान के माध्यम

ii) रिमोट ई-वोटिंग बुधवार, 28 सितम्बर, 2022 को 5.00 बजे अप. (भा.मा.स.) पर समाप्त होगी तथा प्रस्ताव पर एक बार सदस्य द्वारा मतदान कर लेने के उपरान्त सदस्यों को बाद में इसमें परिवर्तन करने की अनमित

(ii) रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 26 सितम्बर, 2022 को 9.00 बजे पूर्वा. (भा.मा.स.) पर प्रारम्भ होगी।

v) रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने हेत पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि बृहस्पतिवार, 22 सितम्बर, 2022 है।

v) बुधवार, 28 सितम्बर, 2022 को 5.00 बजे अप. (भा.मा.स.) के पश्चात रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यल निष्क्रिय

⁄i) जिस व्यक्ति ने शेयर अर्जित किया है और ई−मेल द्वारा एजीएम की सुचना भेजे जाने के उपरान्त कम्पनी क सदस्य बन जाता है तथा कट-ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है वह ईओजीएम की सूचना में प्रावधानित ई-वोटिंग हेतू निर्देशों का अनुपालन करके मतदान कर सकता है जो कम्पनी तथा सीडीएसएल की वेबसाइट

पर उपलब्ध है। किन्त यदि व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग हेत पहले से ही सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है तो वह मतदान करने हेतु अपने मौजूदा यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है। सदस्य कृपया ई-वोटिंग निर्देशों को ध्यान से देख लें जो एजीएम की सूचना में प्रावधानित है। vii) सदस्य ध्यान दें कि (क) जिस सदस्य ने एजीएम के पर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर लिया है

वह एजीएम में वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग ले सकता है किन्तु वह एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने का पात्र नहीं होगा, (ख) एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य तथा जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान नहीं किया है वे एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना मतदान कर सकते हैं. (ग) कोई व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर य डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग सुविधा वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सुविधा प्राप्त

viii) रिमोट ई-वोटिंग से सम्बन्धित विवरण के लिए कृपया एजीएम की सूचना का सन्दर्भ लें, ई-वोटिंग से सम्बन्धित किसी पूछताछ के मामले में www.evotingindia के डाउनलोड खण्ड देखें अथवा 022-2302333 अथवा टोल-फ्री नं. 1800225533 पर सम्पर्क करें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-

(ix) निष्पक्ष तथा पारदर्शी ढंग से रिमोट ई–वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के लिए अनीशा झुनझुनवाल एण्ड एसोसिएट्स, कार्यरत कम्पनी सचिव को संवीक्षक नियुक्त किया गया है।

डिपॉजिटरी पार्टीसिपेंटस के साथ इसे अपडेट करा लें।

कम्पनी के जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते कम्पनी के साथ पंजीकृत नहीं कराये हैं वे कृपया अपने

कृते फोर्थ डाइमेंशन सॉल्युशन्स लिमिटेड

आशीष ठाकुर

(B)

रिट याचिका (सिविल) संख्या 940 / 2017 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से

संपत्ति ई-नीलामी बिक्री की सूचना

(आम्रपाली ग्रुप के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या 940/2017 शीर्षक बिक्रम चटर्जी एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में पारित आदेश के अनुसरण में)

एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट के माध्यम से 14.09.2022 को ई-नीलामी द्वारा संपत्तियों की बिक्री हेत् सूचना https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/amrapali/index.jsp मथुरा, उत्तर प्रदेश में 2 आवासीय भुखंड (29870 वर्ग मी. और 22910 वर्ग मी.)।

ग्रेटर नोएडा, उ.प्र. में आरसीसी संरचनाओं के साथ भूखंड (100000 वर्ग मी.)।

मधुरा, उ.प्र. में भूमि पर (6828.47 वर्ग मी.) अर्ध-निर्मित मॉल (22921.64 वर्ग मी. में निर्मित)।

बरेली, उ.प्र. में भूमि पर (5240.5 वर्ग मी.) पूरी तरह से निर्मित मॉल (16687.38 वर्ग मी. में निर्मित)। सेक्टर-62, नोएडा, यूपी में निर्मित क्षेत्र (1936.27 वर्ग मीटर) के साथ संस्थागत भूमि (800 वर्ग मीटर)। गंगटोक, पूर्वी सिक्किम में शैक्षिक भूमि (290410 वर्ग फुट)।

किसी भी लंबित दावों से संबंधित मुद्दों का समाधान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा ई-नीलामी संबंधित पुछताछ हेत संपर्क करें: श्री मनोज पाण्डे (9727700986), निरीक्षण हेत् संपर्क करें : श्री अभिषेक जैन (8800130742)।

यदि उपर्यक्त संपत्तियों पर किसी व्यक्ति / बँक / संगठन का कोई बकाया / चार्ज हो तो कपया कार्यालय कोर्ट रिसीवर, सी-240, सेक्टर-44, नोएडा (उ.प्र.) से ई-नीलामी की तारीख से पहले संपर्क करें (कोर्ट रिसीवर की ई–मेल आईडी– rv_ramani@hotmail.com) रिसीवर आग्रपाली

सर्वोच्च न्यायालय, भारत

विवो कलिबोरशन साल्युशन्स लिमिटेड (सीआईएन: U72900DL2012PLC230709)

पंजीकत कार्यालयः 315. तीसरी मंजिल. एचबी टिवन टॉवर, नेताजी सभाष प्लेस.

पीतमपुरा उत्तरी दिल्ली दिल्ली-110034

ईमेल: sanjay.mittal@vivo.ooo, वेबसाइट: www.vhro.ooo, फोन: 91-7838651690; 11वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सचना, ई-वोटिंग की जानकारी, बक क्लोजर एतदवारा सचना दी जाती है कि 11वीं एजीएम की सचना में निर्धारित व्यवसाय का लेन-देन करने के लिए कंपनी की 11वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो-विज्अल साधने ('ओएवीएम') के माध्यम से गुरुवार, 29 सितंबर, 2022 को 01:00 अपराह्न (भा.मा.स.) पर आयोजित की जाएगी कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/ 2020, 02/2021 और 03/2022 क्रमश दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 05 मई, 2020,13 जनवरी, 2021 और 05 मई 2022 एवं अन्य परिपत्रों के साथ पठित भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और उद्घाटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 सेबी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआरपी/पी/2020/79 सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 क्रमश: दिनांक 12 मई. 2020 और 15 जनवरी. 2021 के अनुसार, 11वीं एजीएम की सुचना और वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 को इलेक्ट्रॉनिक मोड में केवल उन सदस्यों को जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं, भेजा गया है। एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के माध्यम से सदस्यों को एजीएम की सचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण 05 सितंबर, 2022 को पूरा कर लिया गया है। उपरोक्त नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट यानी www.vivo.ooo और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी www.nseindia.com पर उपलब्ध है।

समय-समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों और सेबी (सचीबद्धता दायित्व और उदघाटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के प्रावधानों और आम बैठक (एसएस-2) पर सचिवीय मानक के अनपालन में. कंपनी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के माध्यम से अपने सदस्यों को वीसी/ओएवीएम सुविधा और ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएम के दौरान एजीएम के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान से मतदान करने के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है। इस संबंध में प्रक्रिया/निर्देश एजीएम की सूचना के नोट्स में प्रदान

कट-ऑफ तिथि यानी 22 सितंबर 2022 को भौतिक रूप में या डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले कंपनी के सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट डालने या वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने और एजीएम में वोट डालने के पात्र होंगे। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पंजी के उनके शेयरों के अनुपात में होंगे, रिमोट ई-वोटिंग की अवधि सोमवार 26 सितंबर 2022 (सुबह 09.00 बजे भा.मा.स.) से शुरू होगी और बुधवार 28 सितंबर, 2022 (शाम 05:00 बजे भा.मा.स.) को समाप्त होगी। इसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार सदस्यों द्वारा रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से एक संकल्प पर वोट देने के बाद, उसे बाद में इसे बदलने की अनुमित नहीं दी जाएगी। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है. वे भी एजीएम मे शामिल हो सकते हैं. लेकिन फिर से वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति. जो शेयर अर्जित करता है और नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-

ऑफ तिथि यानी गुरुवार, 22 सितंबर 2022 तक शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकत हैं तो आप अपना वोट डालने के लिए अपने मौजदा यजर आईडी और पासवर्ड का

श्री संजीव डबास, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए स्क्रटिनाइजर के रूप में नियक्त किया गया है।

जो सदस्य एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे शेयरधारकों के नाम और पते का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की प्रति के साथ, पैन/अन्य पहचान और पते के प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रति के साथ अपना नाम, डीमैट खाता/फोलियो नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए कंपनी को cs@vivo.ooo पर अपने पंजीकृत ई-मेल के माध्यम से 26 सितंबर, 2022 तक अनुरोध भेजकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।।

डीमैटीरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटस के साथ अपने ईमेल पते को अपडेट करें। ई-वोटिंग या वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य www.evoting.nsdl.co.in के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) for the Shareholders तथा e-voting user manual for Shareholders देख सकते हैं या टोल फ्री नंबरः 1800-1020-990 या 1800-224-430 पर कॉल करें या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें या नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, 4था तल, कमला मिल कंपाउंड, सेनापित बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013 से निर्धारित ईमेल आईडी evoting@nsdl.co.in पर संपर्क करें।

कृते विवो कोलैबोरेशन सॉल्युशन्स लिमिटेड

स्थानः नई दिल्ली

संजय मित्तल (प्रबंध निदेशक दिनांक: 05सितंबर, 2022 डीआईएनः 01710260

> भारत निधि लिमिटेड सीआईएन नं. U51396DL1942PLC000644

पंजी. कार्यालयः प्रथम तल, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, ई-मेल आईडी: bharatnidhi1@gmail.com, फोन नं. 011-43562982

79वीं वार्षिक आम बैठक, बक क्लोजर (बही बंद) और ई-वोटिंग की सूचना एतद्वारा सचित किया जाता है कि:

 कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के 8 अप्रैल, 2020 दिनांकित परिपत्र संख्या 14 / 2020. 13 अप्रैल, 2020 दिनांकित परिपत्र संख्या 17 / 2020, 05 मई, 2020 दिनांकित परिपत्र संख्या 20 / 2020, 13 जनवरी, 2021 दिनांकित परिपन्न संख्या 02 / 2021 और 5 मई 2022 दिनांकित परिपत्र संख्या 02 / 2022 ("एमसीए परिपत्र") के अनुपालन में कम्पनी के सदस्यों की 79वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 27 सितंबर, 2022 को दोपहर 12:30 बजे वीखियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी)/अन्य ऑखियो विज्अल माध्यम (ओएवीएम) से, कथित नोटिस में उल्लिखित कार्य का संपादन करने के लिए आयोजित की जाएगी। एजीएम का स्थान कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय माना जाएगा। कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांस्फर रजिस्टर ब्र्धवार, 21 सितंबर, 2022 से

मंगलवार, 27 सितंबर, 2022 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

 एमसीए परिपत्रों के अनुसार एजीएम आमंत्रण सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 उन सदस्यों को ईमेल से भेजी गई है जिनके ईमेल पते कम्पनी / डिपॉजिटरी में पंजीकत हैं। सदस्यों को एजीएम की सचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता एमसीए के परिपत्रों के माध्यम से समाप्त कर दी गई है।

 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) विनियम, 2014 के नियम 20, समय-समय पर संशोधित, के अनुपालन में रिमोट इलेक्टॉनिक वोटिंग (रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग) संबंधी

आवश्यक विवरण नीचे दिए गए हैं: (क) एजीएम में किए जाने वाले कार्य रिमोट ई—वोटिंग या एजीएम में ई—वोटिंग के माध्यम से

किए जा सकते हैं। (ख) रिमोट ई-वोटिंग शनिवार, 24 सितंबर, 2022 (सुबह 9 बजे आईएसटी) से शुरू होगी और सोमवार, 26 सितंबर, 2022 (शाम 5.00 बजे आईएसटी) को समाप्त होगी। इसके बाद

ई-वोटिंग मॉडयुल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा (ग) कट-ऑफ तिथि 20 सितंबर, 2022 है। कोई व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि में सदस्यों के रजिस्टर या फिर डिपॉजिटरी के लामार्थी रजिस्टर में दर्ज होंगे केवल वही रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग करने का अधिकारी होगा।

(घ) कोई व्यक्ति जो सुचना भेजने के बाद कम्पनी के शेयर लेता है और कम्पनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि में शेयरधारक है तो उससे अनुरोध है कि इस सबंध में सहायता के लिए अपने फोलियो नंबर / डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी का उल्लेख करते हुए आरटीए को parveen@skylinerta-com पर लिखित निवेदन / ईमेल भेजें।

(ङ) सदस्य जो वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेते हैं और रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर मतदान नहीं करते हैं वे एजीएम में उपलब्ध ई-वोटिंग सिस्टम से मतदान करने योग्य होंगे।

(च) सदस्य जो एजीएम से पहले रिमोट ई—वोटिंग से मतदान कर देते हैं वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम से दुबारा मतदान करने के

(छ) श्री. मोहित बंसल (मेसर्स मोहित बंसल एंड एसोसिएट्स), प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव (सदस्यता संख्या एसीएस 46112, सीओपी नंबर 16860) ई-वोटिंग प्रक्रिया के स्क्रुटनाइजर नियुक्त किए गए हैं।

(ज) रिमोट ई—वोटिंग / एजीएम में ई—वोटिंग और वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है। (इ) यह सूचना आरटीए की वेबसाइट www.skylinerta.com और सीडीएसएल की वेबसाइट

www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। (a) ई-वोटिंग के संबंध में किसी प्रश्न / समस्या के समाधान के लिए सदस्य संपर्क करें: श्री

राकेश दलवी (1800 22 55 33), पताः ए विंग, 25वीं मंज़िल, मैराथन यूचरएक्स, मफतलाल मिल कम्पाउंड्स, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई-400013, ईमेल आईडी: helpdesk.evoting@cdslindia.com। सदस्य कम्पनी के आरटीए को parveen@skylinerta.com पर भी लिख सकते हैं। (त) वित्त अधिनियम 2020 के अनुसार 1 अप्रैल, 2020 की प्रभावी तिथि से लाभांश की आय के

लिए शेयरधारकों पर कर लागू है और कम्पनी के लिए सदस्यों को भूगतान किए गए लाभांश से स्रोत पर निर्धारित दरों से कर काटना आवश्यक है। इसलिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे रजिस्टार और टांस्फर एजेंट (यदि शेयर भौतिक रूप में हैं) और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (यदि डीमैट शेयर हैं) को अपना पैन अपडेट कर दें। हालांकि निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक को देय लाभांश पर कोई कर नहीं काटा जाएगा यदि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त कल लाभांश 5000 रुपयों से अधिक नहीं है। यदि किसी निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक के लिए आयकर देय नहीं है तो उसे कर नहीं

कटने का लाम लेने के लिए कम्पनी के आरटीए को info@skylinerta.com और parveen@skylinerta.com पर 20 सितंबर, 2022 तक (शाम 5.00 बजे आईएसटी तक) फॉर्म 15जी / 15एच में वार्षिक घोषणा ईमेल करनी होगी। शेयरधारकों से यह ध्यान रखने का अनुरोध किया जाता है कि यदि उनका पैन पंजीकृत नहीं है तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206AA के अनुसार 20 प्रतिशत की उच्च दर से कर की कटौती की कृते भारत निधि लिमिटेड

हस्ता/-

अमिता गोला कंपनी सचिव

RAI BAHADUR NARAIN SINGH SUGAR MILLS LTD. CIN:U74899DL1932PLC000298

Regd. Office: 2, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001 Head Office: B- 40, Second Floor, B- Block, Connaught Place, New Delhi-110001 Tel.: 011-41513656, 58 E-mail:rbns@rbnssugar.in;rbnsmail@rbnssugar.in

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the ANNUAL GENERAL MEETING of the Company will be held on Wednesday, 28th day of September, 2022 at 4:00 PM through Video Conferencing (VC) or other Audio- Visual Means (OAVM) mode as permitted by Ministry of Corporate Affairs to transact the business as stated in the notice of the

In terms of the provisions of the Income-tax Act, 1961 ("the Act"), dividend paid or distributed by a Company on or after April 1, 2020 is taxable in the hands of the shareholders and therefore the Company is required to withhold/ deduct taxes at the prescribed rates on the dividend paid to its shareholders. The tax rates would vary depending on the residential status of the shareholder and the exemptions as enumerated in the Income Tax Act, 1961 and Rules made there under.

All shareholders are requested to ensure that the details such as Permanent Account Number ("PAN"), residential status, category of shareholder, email id, bank details and address are updated with the Company and Registrar & Share Transfer Agent of the Company. Please note that these details as available on Book Closure Date in the Register of Members will be relied upon by the Company, for the purpose of complying with the applicable withholding tax provisions.

Notice pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Tuesday, 27th September, 2022 to Wednesday, 28th September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and payment of Final Dividend, if approved by the members at the Annual General Meeting of the Company.

> By order of the Board For Rai Bahadur Narain Singh Sugar Mills Ltd.

DATE: 26.08.2022 PLACE: NEW DELHI

Meeting.

Nidhi Arora Company Secretary

कोरल न्यूजप्रिन्ट्स लि.

CIN NO: L22219DL1992PLC048398, ई—मेलः cnpl 5000@rediffmail.com वेबसाइटः www.coralnewsprintslimited.com, दूरभाष. : 22010998

एतद्दवारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी की 30वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) शुक्रवार 30 सितम्बर 2022 को 2.00 बजे अप. में विडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा आयोजित की जाएगी जिसमें 30वीं एजीएम सूचन में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनपालन सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथ कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें शनिवार, 24 सितंबर, 2022 से शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 (दोनों दिवर सहित) तक 30वीं एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगे। 30वीं एजीएम सूचना के साथ वित्त वर्ष 2021–22 की वार्षिक रिपोर्ट सभी सदस्यों को इलेक्टॉनिक पद्धति द्वारा प्रेषित कर दी गई है जिनके ईमेल आईर्ड 5 सितम्बर, 2022 को कम्पनी/आरटीए / डीपी'ज के पास पंजीकृत हैं तथा अन्य सदस्यों जिनके ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं, का स्वीकृत पद्धित से भेजी गई है। उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के साथ पिठत कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के अनुसार यह कम्पनी 30वीं एजीएम में निष्पादित होने वाले व्यवसायों पर लिंक इन्टाइम इंडिया प्रा. लि द्वारा उपलब्ध कराई गई ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से इलेक्टानिक रूप से मतदान करने में उन्हें सक्षम बनाने के लिये सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करा रही है सदस्य ध्यान रखें कि क) व्यवसायों को इलेक्ट्रानिक माध्यमों से मतदान द्वारा निष्पादित किया जायेगा।

ख) रिमोट ई—वोटिंग 27 सितम्बर, 2022 को 9.00 बजे पूर्वो. शुरू होगी तथा 29 सितम्बर, 2022 को 500 बजे अप में बंद होगी।

ग) इलेक्ट्रानिक माध्यमों से अथवा 30वींएजीएम में मतदान की पात्रता सनिश्चित करने के लिये कट-ऑफ तिथि 23 सितम्बर, 2022 होगी।

घ) यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि को शेयर धारित करते हैं, वे mumbai@linkintime.co.in. फ अनुरोध भेजकर लागिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। ड.) 29 सितम्बर, 2022 को 5.00 बजे अप. के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी

च) रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर देने के बाद भी सदस्य एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन

एजीएम में फिर से मतदान की अनमति उन्हें नहीं दी जाएगी। छ) जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा लाभभोगी स्वामियों रिजस्टर में शामिल होगा वे हीं रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में मतदान की सुविधा प्राप्त करने

ज) 30वीं एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाईट तथा लिंक इन्टाइम की वेबसाईट www.coralnewsprintslimited.com तथा लिंक इन्टाइम www.linkintime.co.in पर भी स्थापित है।

झ) रिमोट ई—वोटिंग से संबंधित किसी प्रश्न/समस्या के लिये कपया लिंक इन्टाइम इंडिया प्रा. लि पता: नोवल हाइट्स, प्रथम तल, सी-1, ब्लॉक, शास्त्री मार्केट के निकट, जनकपुरी, न दिल्ली-110058, 011-41410592 से सम्पर्क करें।

स्थान: दिल्ली तिथिः 05.09.2022

बोर्ड के आदेश से (पी.पी. एस. चौहान)

PRO CLB GLOBAL LIMITED (FORMERLY PROVESTMENT SERVICES LIMITED) CIN: L74899DL1994PLC058964

REGD. OFFICE: Building No. 5, First Floor, Pusa Road W.E.A., Karol Bagh, New Delhi -110 005 | Tel.: 011-47177000 Email Id: deepika.proclbglobal@gmail.com Website: www.proclbglobal.com

Information Regarding 28th Annual General Meeting of PRO CLB GLOBAL LIMITED

NOTICE is hereby given that the 28th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, September 29, 2022 at 04:00 P.M. deemed to be convened at registered address of the company through Video Conferencing (VC) and Other Audio Video Means (OAVM) in compliance with General Circular No. 20/2020 Dated 5th May, 2020 read with General Circular No. 14/2020 and General Circular No. 17/2020 dated 8th April, 2020 and 13th April, 2020, 05th May, 2020, 13th January, 2021 and 05th May 2022 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India and Circular dated May 12, 2020 issued by Securities and Exchange Board of India(SEBI), to transact the business (es) as set out in the Notice of the AGM which is being sent to the members by E-mail.

2. 28th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, September 29, 2022 at 04:00 P.M. through Video Conferencing (VC) and Other Audio Video Means (OAVM).

In compliance with the above said Circular Notice along with Annual Report for the Financial Year will be sent only by the electronic mode to all the Members at their registered email-ids and the same is also available on the website of the Company at www.proclbglobal.com . The Notice of AGM is also available on the website CDSL at

Shareholders will have an opportunity to cast their vote remotely on the businesses as set forth in the Notice of the AGM through remote e-voting System. The Log in credentials for casting the votes through e-voting shall be made available to the shareholders through e-mail. The detailed procedure for casting the votes through evoting and e-voting system during the meeting shall be provided in the Notice of the Members who have not registered their email addresses, so far, are also requested to

register their email address in respect of electronic holdings with depository through their concerned Depository Participants. Members who hold their shares in physical form are requested to get their email id registered, by providing necessary details like Folio No., Name of the Member, Mobile No. And Email Id with M/s. Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd (Registrar & Transfer Agent of the Company) or sent details on deepika.proclbglobal@gmail.com.

NOTICE FOR 28th (ANNUAL GENERAL MEETING) AGM. BOOK CLOSURE AND E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 28th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, September 29, 2022 at 04:00 P.M. deemed to be convened at registered address of the company through Video Conferencing (VC) and Other Audio Video Means (OAVM) to transact the business (es) as set out in the Notice dated September 02, 2022. The said Notice along with Annual Report has been sent to all the Members at their registered email-ids by Tuesday, September 06, 2022 and the same is also available on the website of the Company at www.procloglobal.com The Notice of AGM is also available on the website CDSL at www.evotingindia.com

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Register of Members and Share transfer Books of the Company will remain closed from Friday, September 23, 2022 to Thursday, September 29, 2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM of the Company for the year ended March 31, 2022.

As permitted under Rule 11 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, the Annual Report for the year 2022 have been sent electronically on 06th September, 2022 to those members who have registered their e-mail id addresses with M/s. Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd (Registrar & Transfer Agent of the Company). Members who have not registered their email addresses, so far, are also requested to

register their email address in respect of electronic holdings with depository through their concerned Depository Participants. Members who hold their shares in physical form are requested to get their email id registered, by providing necessary details like Folio No. Name of the Member, Mobile No. And Email Id with M/s. Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd (Registrar & Transfer Agent of the Company) or sent details on deepika.proclbglobal@gmail.com Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and in terms of Section

108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration' Rules, 2014: a) The Company is providing remote e-voting facility to its Members to cast their vote by electronic means on the Resolutions set out in the Notice of the 28th AGM dated

 b) Commencement of remote e-voting: Monday, September 26, 2022 10:00 a.m.(IST) c) End of remote e-voting: Wednesday, September 28, 2022 05:00 p.m.(IST)

d) Cut-off date: September 22, 2022. e) Remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting after 05:00 p.m. (IST) on

Date: 06/09/2022

Place: New Delhi

Wednesday, September 28, 2022. The result of the E-voting /Remote E-voting shall be declared on or before October 01, 2022. The Result declared, along with Scrutinizer Report will be available at the

Registered Office of the Company and also be placed on the Company's website and communication to the Stock Exchanges where the Company's shares are listed. By Order of the Board For PRO CLB GLOBAL LIMITED

> (Formerly PROVESTMENT SERVICES LIMITED) **DEEPIKA RAJPUT**

> > (Company Secretary & Compliance Officer)

अभिनव लीजिंग एंड फाइनांस लिमिटेड

(CIN: L65100DL1984PLC018748) पंजी. कार्या: एस-524, 1ला तल, विकास मार्ग, शकरपुर, दिल्ली-110092

अभिनव लीजिंग एंड फाइनांस लिमिटेड के सदस्यों की 38वीं (अडतीसवीं) वार्षिक आम सभा (एजीएम) शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2022 को 10.00 बजे पूर्वा. में एस-524, 1ला तल, विकास मार्ग, शकरपुर, दिल्ली-110092 में आयोजित की जाएगी जिसमें उक्त सभा के आयोजन की सचना जो 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वार्षिक रिपोर्ट के साथ शुक्रवार, 2 सितम्बर, 2022 को पंजी. में वर्णित सदस्यों के

रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें शनिवार, 24 सितम्बर, 2022 से शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2022 (दोनों दिवस सिहत) तक बंद रहेंगे। अधिनियम की धारा 108 तथा कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के यिम 20 तथ साधारण सभा पर सचिवालयी मानक के मानक-2 के प्रावधानों के अनुपालन में यह कंपनी एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराई गई इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (''रिमोट ई-वोटिंग'') द्वारा अपने मताधिकार क प्रयोग करने की सुविधा अपने सदस्यों को उपलब्ध करा रही है।

(१.00 बजे पूर्वा.)

एजीएम में सभा में उपस्थित होने वाले सदस्यों के लिए मत पत्र द्वारा मतदान की

हो सकते हैं, लेकिन सभा में अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम नहीं

● एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.abhinavleasefinltd.in एव

 यदि ई-वोटिंग से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा अथवा प्रश्न हो तो आप सहायत खंड के अंतर्गत www.evotingindia.com पर उपलब्ध तथा ई-वोटिंग मैन्युअल देख सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर

अभिनव लीजिंग एंड फाइनांस लिमिटेड के लिए

तिथि: 6.9.2022 स्थान: दिल्ली

ईमेल कर सकते हैं।



सीआईएन: U85110UP1987PLC008792

पंजीकृत कार्यालय :ए-2, सर्वोदय नगर, कानपुर 208 005 उत्तर प्रदेश दूरभाष: 0512-3502480 ईमेल: investor@regencyhealthcare.in,

तदद्वारा सूचना दी जाती है कि

- कॉपोरेंट मामले मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 2 / 2022 और 19 / 2021 एवं अन्य परिपत्रों के अनुपालन में रीजेंसी हॉस्पिटल लिमिटेड ("कंपनी") के शेयरधारकों की 33वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार 28 सितंबर, 2022 को सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जायेगी। कंपनियों को सामान्य स्थान पर शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीसी के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति है। तदनुसार, कंपनी की एजीएम दिनांक 9 अगस्त 2022 को 33वीं एजीएम ("नोटिस") में निर्धारित किए गए अनुसार वीसी के माध्यम से व्यवसायों के

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2021–22 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी शेयरधारकों को भेज दी गई हैं जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.regencyhealthcare.in पर और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी

- कट-ऑफ तिथि (21 सितंबर, 2022) को भौतिक रूप में या अभौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य एनएसडीएल के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ('रिमोट ई-वोटिंग') के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों पर इलेक्टॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं। शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात में होंगे। वीसी सविधा के माध्यम से भाग लेने वाले शेयरधारकों को कंपनी अधिनियम, 2013

 सभी सदस्यों को सचित किया जाता है किः i-सूचना में निर्दिष्ट व्यवसाय का एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग अथवा ई-वोटिंग

सिस्टम के माध्यम से लेन-देन किया जा सकता है।

निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि 21 सितंबर, 2022 होगी।

iv—रिमोट ई—वोटिंग मंगलवार, 27 सितंबर, 2022 (5:00 बजे अपराह भा.मा.स.) को

v-रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल 27 सितंबर, 2022 को शाम 5:00 बजे अप- भा.मा.स. के बाद निष्क्रिय हो जाएगा। vi-भौतिक रूप में शेयर रखने वाला कोई भी व्यक्ति और गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है और नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी 21 सितंबर 2022 तक शेयर धारण करता है, वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड

साथ पहले से पंजीकृत है तो वह वोट डालने के लिए अपने मौजूदा युजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। vii—डीमैट मोड में प्रतिभतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में और जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करते हैं और नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी के सदस्य बन जाते हैं और कट-ऑफ तिथि यानी 21 सितंबर 2022 के अनुसार शेयर

चरणों का पालन कर सकते हैं।

क) एक बार सदस्य द्वारा किसी संकल्प पर वोट देने के बाद, सदस्य को बाद में इसे

बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी ख) एजीएम के दौरान मतदान की संविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, और वीसी सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से वर्जित नहीं हैं, वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के पात्र

एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन वे पूनः वोट डालने के हकदार नहीं होंगे, घ) केवल वे व्यक्ति जिनका नाम कट-ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, रिमोट

ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सविधा का लाभ उठाने के हकदार ix -डीमैटीरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं करने वाले शेयरधारकों के लिए रिमोट वोटिंग करने का तरीका एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराया गया है। यह विवरण कंपनी की

विवरण प्राप्त करने के लिए www.regencyhealthcare.in देखें। x-डीमैट मोड में शेयर रखने वाले और अपने केवाईसी विवरण को अपडेट नहीं करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से अपने डिपॉजिटरी के साथ ईमेल और अन्य केवाईसी विवरण पंजीकृत करें। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले और अपने केवाईसी विवरण को अपडेट नहीं करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए), स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ अपने ईमेल, बैंक खाते के विवरण और अन्य केवाईसी विवरणों को अपडेट करने के लिए फॉर्म आईएसआर-1 जमा करें। आपसे अनुरोध है कि विधिवत भरे हुए फॉर्म को

xi-किसी भी पूछताछ / शिकायत के मामले में, शेयरधारक एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) for Members और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए, सदस्य सुश्री अंकिता गुप्ता, कंपनी सचिव, बी-5 सर्वोदय नगर कानपुर-208005 से ankitagupta@regencyhealthcare.in, दूरभाषः 0512-3502480 पर संपर्क कर सकते

कते रीजेंसी हास्पिटल लिमिटेड

दिनांकः ५ सितम्बर २०२२ स्थान : कानपुर

कम्पनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली

दिनांक: 05 सितंबर, 2022

नाम में भेजी गई है, में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा। कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 91 के अनुपालन में सदस्यों के

रिमोट ई-वोटिंग शुरू होने की तिथि एवं समयः मंगलवार, 27 सितम्बर, 2022

रिमोट ई-वोटिंग बंद होने की तिथि एवं समयः गुरुवार, 29 सितम्बर, 2022

मतदान की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए कट ऑफ तिथिः शुक्रवार, 16

सविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जो सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान करते हैं, वे भी सभा में उपस्थिति

सीडीएसएल की वेबसाईट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

ममता अग्रवाल प्रबंध निदेशक



वेबसाइट: www.regencyhealthcare.in 33वीं वार्षिक आम बैठक तथा ई वोटिंग की जानकारी की सचना

निष्पादन के लिए आयोजित की जा रही है।

की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य के लिए गिना जाएगा।

ii-एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग सिस्टम द्वारा वोट करने की पात्रता

iii-रिमोट ई-वोटिंग शनिवार, 24 सितंबर, 2022 (सुबह 9:00 बजे पूर्वा. भा.मा.स.) से

प्राप्त कर सकता है। हालांकि यदि वह रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के

धारण करते हैं. "Instructions for e-voting"के तहत एजीएम की सचना में उल्लिखित

viii—सदस्य ध्यान दें कि:

ग) जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी

वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। शेयरधारकों से अनुरोध है कि इस तरह के

admin@skylinerta.com पर ईमेल करें।

अकिता गुप्ता

स्थान : नई दिल्ली तिथि : 05 सितम्बर, 2022 कम्पनी सचिव

www.readwhere.com